

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 578]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 नवम्बर 2021 — कार्तिक 26, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 नवम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सलवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी. निर्धारित समयावधि में आयोग का जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण इस विभाग द्वारा समय-समय पर आयोग के कार्यकाल में वृद्धि की गई है. समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-07-2021 द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01-08-2021 से और वृद्धि की गई है, जो दिनांक 31-10-2021 को समाप्त हो गई है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः न्यायिक जांच आयोग के प्रस्ताव पर विचारोपरांत राज्य शासन एतद्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01-11-2021 से दिनांक 30-11-2021 तक और 01 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मेरी खेस्स, उप-सचिव.